



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 107] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 1981/फाल्गुन 25, 1902  
No 107] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 1981/PHALGUNA 2, 1901

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

वाणिज्य मंत्रालय  
(वस्त्र विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1981

का. जा. 186 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955  
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, ऊनी वस्तु  
(उत्पादन और वितरण नियंत्रण) आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए  
निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण  
नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1981 है ।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2. ऊनी वस्त्र (उत्पादन और वितरण नियंत्रण) आदेश, 1962 के खंड 4 में
- (1) “कीमतों का नियंत्रण” शीर्षक के स्थान पर, “कीमतों का नियंत्रण,

पैक करने और चिह्नानंकित करने का विनिर्देश" शीर्षक रखा जाएगा ;

(2) उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) वस्त्र आयुक्त, ऊनी सूत को पैक करने की रीति, ऊनी सूत के विनिर्माता या ब्याहारी द्वारा, यथास्थिति, विनिर्मित या, विक्रीत किसी वर्ग या विनिर्देश के ऊनी सूत को चिह्नानंकित करने और इस प्रकार चिह्नानंकित करने का समय तथा रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा।”;

(3) उपखण्ड (3) में, “नियत प्रभारों से अधिक” शब्दों के स्थान पर “नियत प्रभारों से, यदि कोई हो, अधिक” शब्द रखे जाएंगे ;

(4) उपखण्ड (4) में, “नियत कीमत से अधिक” शब्दों के स्थान पर “नियत कीमत से, यदि कोई हो, अधिक” शब्द रखे जाएंगे ।

[फ. सं. 11/1/77-डब्ल्यू टी पाट]

एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

## ORDER

New Delhi, the 16th March, 1981

**S.O. 186(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government makes the following order further to amend the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Order, 1962, namely :—

(1) This order may be called the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) (Amendment) Order, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Order 1962, in clause 4,—

(i) for the heading “Fixation of Prices”, the heading “Fixation of prices, specification of packing and marking” shall be substituted;

(ii) for sub-clause (2) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(2) The Textile Commissioner may specify the manner of packing woollen yarn, markings to be made by manufacturer or dealer on any class or specification of woollen yarn manufactured or as the case may be sold by him and the time and manner of making such markings” ;

(iii) In sub-clause (3), for the words “in excess of charges fixed” the words “in excess of charges, if any, fixed” shall be substituted ;

(iv) in sub-clause (4), for the words, “in excess of the price fixed,” the words, “in excess of the price, if any, fixed” shall be substituted.

[F. No. 11/1/77-WT (Part)]

S. K. SARKAR, Jt. Secy.